NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED

Plot No. 239, South Old Bagadganj, Small Factory Area, \(\begin{align*} +91 712 2778824 \end{align*} Nagpur 440 008. Maharashtra, INDIA. CIN Number: L15510MH2013PLC249458

+91 712 2721555

info@nakodas.com www.nakodas.com



Date: - 03rd May, 2022

To,

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE Ltd)

Exchange Plaza, 05th Floor, Plot No. C-1, Block G,

Bandra Kurla complex, Bandra (E) Mumbai – 400051

NSE Scrip Code: - NGIL

BSE Limited

Listing / Compliance Department, Phiroze jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

BSE Scrip Code:-541418

Sub: - Intimation as per Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and applicable Regulation of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) - Corrigendum published to Letter of Offer for the Extension of period of Rights Issue of the Company ("Rights Issue").

Dear Sir/Madam,

Pursuant to applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018, Regulation 30 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we enclosed herewith the copies of corrigendum to the Letter of offer published by the company for the Extension of period of Right issue of the company. The details published in the below mentioned Newspapers on 03rd May, 2022.

1. Financial Express: English Daily: All India Edition

2. Jansatta: Hindi Daily: All India Edition

3. Dainik Mahasagar: Marathi Daily: Nagpur Edition

You are requested to please take the note of same in your record.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

For Nakoda Group of Industries Limited



Pratul Wate Company Secretary & Compliance Officer (Membership No. : - A49131)

Encl: - As Above

अमृत कॉर्प. लिमिटेड

सीआईएन:L15141UP1940PLC000946 पंजीकृत कार्यालय: सीएम/28, पहली मंजिल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जीटी रोड, गाजियाबाद -201009 (यूपी) कोर्प. कार्यालय: अमृत कॉर्पोरेट केंद्र, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309 (यूपी) दरभाष: 0120-4506900 । फैक्स: 0120-4506910 । ई-मेल: info@amritcorp.com वेबसाइट: www.amritcorp.com

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 "सूचीयन विनियमन" के विनियमन 29, 33, 47 तथा लागु होने वाले किसी अन्य विनियमन के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल तथा ऑडिट किमटी की बैठक शुक्रवार 13 मई, 2022 को विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों पर विचार परीक्षण तथा अनमोदन किया जायेगा। उक्त सचीयन विनियमन के विनियमन 47(2) के अनुसार यह सुचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.amrit-corp.com के साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अमृत कार्प लि. के लिये हस्ता/ तिथि: 02 मई,2022 (पी.के. दास) स्थानः गाजियाबाद कम्पनी सचिव

केनरा बैंक 🕸 Canara Bank

खटेल (भारत सरकार का उपक्रम) किमाईएन स. L64202DL2000GOI107905

ई-निविदा संख्या : रेलटेल/पक्षे./ई-निविदा/ख्.नि./ 2021-22/सुरंग/संचार/पु-3 दिनांक 29.04.2022 रेलटेल पश्चिमी क्षेत्र के "नवीनतम संशोधन / संशोधन के साथ आरडीएसओ विनिर्देश आरडीएसओ /एसपीएन/टीसी/109/2019 के अनुसार मुंबई गंडल, मध्य रेलवे के कसारा–इगतपुरी, पनवेल– कर्जत और कर्जत-लोनावाला के अनुभागों के अंतर्गत आने वाली सुरंगों के लिए टनल रेडियो संचार प्रणाली (वीएचएफ सिम्प्लेक्स) के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, वायरिंग, परीक्षण और कमीशनिंग" के लिए

खुली ई—निविदा आमंत्रित करता है। र्नेविदा सूचना और निविदा दस्तावेज https://www.railtelindia.com/ पर उपलब्ध आँर इसे ई-निविदा पोर्टल https://www.ireps.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य के सभी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र केवल रेलटेल की वेबसाइट और -निविदा पोर्टल पर ही अपलोड

वेस्टर्न रेलवे माइक्रोवेव कॉम्पलेक्स मेनापति बापट मार्ग, महालक्ष्मी, मुम्बई-400013 फोन : 91(22) 24923907, फैक्स: 91(22) 24923913

केन्द्रीय kendri andar भण्डार KENDRIYA BHANDAR Pushpa Bhawan' E' Wing, First Floo Madangir Road New Delhi-110062

Bhandar (KB) will be held on 01.09.2022. The dates of election of Directors and Chairman will be decided and communicated in due course as per the MSCS Act., Rules and Bye-Laws made thereunder. For details, please keep visiting the KB website for updates:-

www.kendriyabhandar.org.

ELECTION OF DELEGATES

OSD (Admn.) Ph. No. 011-21820105

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) NSIC New NDBP Building, 2nd Floor, Okhla Ind. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-11 कॉनकॉर निविदा सूचना (केवल ई-निविदा माध्यम से) ऑनलाइन ई–निविदा सह उल्टी (रिक्स) नीलानी मोड (दो बोली प्रणाली में) के मध्यम से "आईसीडी / दादरी ग्रेटर नोएड उत्तर प्रदेश में कंटेनरों की हैंडलिंग हेतु व्यवसाविक सेवाएं" CON/Area-I/TC/Handling/DER/2022. हार्य का नाम आईसीडी / दादरी बेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में कंटेनरों की हैंडलिंग। बनुमानित लागत ₹5.56.21.002.79 / - 3 वर्ष हेत् (जीएसटी सहित)। मविदा की अवधि 3 वर्ष। रोहर राशि * ₹1,000/- ई-भूगतान के माध्यम से सभी कर और शुल्कों सहित। रतावेज की लागत ' नेविदा प्रशंसकरण शतक " ₹4,720 / - ई-भृगतान के माध्यम से सभी कर और शुल्कों सहित (अप्रतिदेय) बिकी की लारीख (ऑनलाइन) 03.05.2022 अपराहन 15:00 बजे से (17.05.2022 अपराहन 16:00 बजे तक)। जमा करने की ऑतेम तारील और समय 18.05.2022 को अपराहन 15:00 बजे तक खोलने की तारीख और समय 18.06.2022 को अपराहन 15.30 बजे। ^{*}ई-भगतान माध्यम से पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों हेत् कृपया www.concorindia.com या www.eprocure.gov.in www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉगऑन करें। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइटों को देखते

रहें। कॉनकॉर किसी भी अथवा सभी निविदाओं को इसका कोई कारण बताए बिना अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता

है। सम्पूर्ण जानकारी के लिए www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉगऑन करें। वरिष्ठ महाप्रबंधक / सीएंडब्रो / एरिया-

कॉनकॉर concor

भारतीय कटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरल कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020 सार्वजनिक नीलामी / निविदा सूचना

ई-नीलामी के माध्यम से क्लीयर न किए गए/अदावाकृत आयातित कार्गों का निपटान करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र के जन कंटेनरों पर या 31.03.2021 से पहले एरिया 1 और एरिया 4 के टर्मिनलों पर पड़े रदी वस्तुओं, खाली पड़े क्षतिग्रस्त कंटेनरों और अदाबाकृत / क्लियर ना किये गए आयातित कार्गो की ई—नीलामी के माध्यम से 17.05.2022 और 30.05.2022 को "जैसा है जहां है के आधार पर" नीलामी करेगा। नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों एवं कार्यों विवरणों के साथ सभी विवरण 05.05.2022 और 21.05.2022 से www.concorindia.co.in एव www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध होंगे। सभी आयातकों जिनमें सरकारी उपक्रम/विभाग भी शामिल हैं, के कंटेनर / सामान किसी विवाद, न्यायालय / अधिकरणों / अन्यों द्वारा दिये गए स्थगन के कारण या ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण से संबन्धित टर्मिनलों पर अदावाकृत / क्लीयर न किए गए पडे हैं और वेबसाइट में अपलोड की गई उक्त सची में आते हैं, वे संबन्धित कार्यकारी निदेशक, एरिया 1 और एरिया 4 कॉनकॉर और संबंधित कमीशनरी, सीमा शुल्क आयुक्त को तदनुसार सुचित कर सकते हैं और इस सूचना व 7 (सात दिनों) के भीतर ऐसे सामानों के निपटान के संबंध में अपनी आपत्तियों / दावे दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर और कोई सूचना दिये बगैर सामानों की "जैसा **है जहां है के आधार पर"** नीलामी कर दी जाएगी। पूर्ण विवरण के लिए कृपया www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें।

कार्यकारी निदेशक, एरिया 1

कब्जा सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड (चल/अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहरताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, (2002 का संख्याक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग पत्र निम्न खाते के आगे वर्णित दिनांकों को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर तथा सम्पत्ति के मालिकों से भुगतान की मांग करते हुए संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों में भुगतान करने के लिए निर्गमित किया। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के भूगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा संपठित नियमों के निमय 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर को विशेषतया तथा जन सामान्य को सुचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से सम्बन्धित राशि एवं व्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–13 की उपधारा (८) के प्रावधान को आकर्षित किया गया है।

क्र.	शाखा का नाम ऋणी एवं	मांग नोटिस	मांग सूचना के अनुसार	बंधक चल/अचल सम्पित्तयों का विवरण
सं.	जमानतियों का नाम व पता	की तिथि	बकाया धनराशि	
1.	शाखा : चम्पावत - ॥ 1) श्रीमती मुक्ता पाण्डेय पत्नी श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, नि० मकान नं. 25, ग्राम मल्ली मडली, पोस्ट चम्पावत, जिला चम्पावत – 262523	29.01.2022 कड़्जे की तिथि 27.04.2022	₹ 16,77,577.57 (रूपये सोलह लाख सतत्तर हजार पांच सौ सतत्तर एवं पैसे सतावन केवल) + प्रभावी ब्याज + अन्य खर्चे	1. बंधक अचल सम्पित्त के सभी भाग एवं हिस्से जो कि खाता नं. 09 बसरा नं. 448, खेत नं. 731, ग्राम मडली मल्ली, पोस्ट चम्पावत, जिल चम्पावत में स्थित है। क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर। सम्पित्त श्रीमती मुक्त पाण्डेय पत्नी श्री गिरीश चन्द पाण्डेय के नाम पर दर्ज है। सीमाएं – पूरब में टनकपुर अस्कोट पैदल रास्ता, पश्चिम में पैदल रास्ता, उत्तर में केंच्टवानन की भूमि, दक्षिण में राम सिंह की इमारत। 2. बंधक अचल सम्पित्त के सभी भाग एवं हिस्से जो कि खाता नं. 09 एवं 10, बसरा नं. 448 एवं 10, खेत नं. 731, 734, 730 ग्राम मडली मल्ली पोस्ट चम्पावत, जिला चम्पावत में स्थित है। क्षेत्रफल 256.25 वर्ग मीटर सम्पित्त श्रीमती मुक्ता पाण्डेय पत्नी श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय के नाम पर्वर्ज है। सीमाएं – पूरब में टनकपुर अस्कोट पैदल रास्ता, पश्चिम में पैदल रास्ता, उत्तर में केंच्टवानन की भूमि, दक्षिण में राम सिंह की इमारत।

ई–नीलामी विक्रय सूचना



दिनांक : 03.05.2022

सर्किल सस्त्र, मुंबई पश्चिम द्वितीय तल, अमन चैंबर्स, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400 025 ईमेल: cs4444@pnb.co.in, दूरभाष सं.: 022-43434630, 43434663

स्थान : क्षेत्रीय कायोलय, हल्द्वानी

सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

अधिक्रत अधिकारी

जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं), गारंटर(रों) और बंधककर्ता(ओं) को सचित किया जाता है कि प्रतिभत ऋणदाता बैंकों, नामतः पंजाब नैशनल बैंक: पर्व में यनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पर्व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित चल/अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक आधिपत्य संबंधित प्रतिभूत ऋणदाता बैंकों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि को ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जाएगा, जो कि संबंधित ऋणकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) की ओर से इन उपरोक्त नामित प्रतिभत ऋणदाता बैंकों को देय–भग्तेय इनकी बकाया देयराशियों की वसली करने हेत होगा। आरक्षित मल्य तथा धरोहर राशि जमा का निम्न तालिका में संबंधित संपत्तियों के समक्ष अंकन

-			6.	3 6			
व्र		शाखा का नाम	बंधककृत अचल संपत्तियों का विवरण	क) सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा	, .,	ई—नीलामी	प्रतिभूत ऋणदाताओं
₹	9. -	खाता का नाम		13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि	(रु. लाख में)	की तिथि/	को ज्ञात भारग्रस्तताओं
	H			ख) एनपीए तिथि के अनुसार बकाया राशि		समय	के विवरण
	П	ऋणकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटरों के	बंधककर्ता का नाम/संपत्ति के स्वामी		तिथि से पूर्व		
	н	खाता का नाम एवं पता		ग) सरफॉएसि अधिनियम 2002 की घारा	एमएसटीसी वालेट द्वारा		
	н			13(2) के अंतर्गत आधिपत्य की तिथि	जमा की जानी है)		संपर्क व्यक्ति का नाम
	н			घ) आधिपत्य की प्रकृति–			तथा नंबर
	н			प्रतीकात्मक / भौतिक / रचनात्मक	ग) बोली वृद्धि राशि		
		सर्किल सस्त्र मुंबई पश्चिम	द्वितीय एवं तृतीय तल डुप्लेक्स फ्लैट एसएफएस		क) रु. 1,77,00,000 / —	08.06.2022	ज्ञात नहीं है
		मैसर्स एडिट गुरु	फ्लैट, नं. 42, सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक, नई	ख) रु. 1,70,67,451.43 और एनपीए की	ख) रु. 17,70,000 / —		
		मोदी भवन, प्रथम तल, फन रिपब्लिक सिनेमा के		तिथि से भावी ब्याज एवं शुल्क	ग) रु. 50,000 / -	12.00 बजे	मोबाइल
	1	सम्मुख, अंधेरी लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम,	अधिमापन क्षेत्र फ्लैट क्षेत्रफल 1657.65 वर्ग फुट,	ग) 26.02.2020		से 01.00 बजे	9723930002
	Į	मुंबई—400053	श्रीमती कुंता सचदेवा के नाम पर	घ) प्रतीकात्मक			8591296152
	8	श्री सत्यजीत ए सचदेवा (साझीदार)		´			7060174407
	9	श्री अक्षयजीत ए सचदेवा (साझीदार)					7000174407
	1	सुश्री मृणालिनी सचदेवा (साझीदार)					
		` '		i i	5		3

विक्रय जो है वह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन होगाः (1) संपत्तियां जो हैं उन्हें ''जैसी हैं जहां हैं आधार'' और ''जैसी हैं जो हैं आधार'' तथा ''वहां जो कुछ भी हैं आधार'' पर बेचा जा रहा है।

(2) यहां इसमें उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण जो हैं उन्हें यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उल्लेखित किया गया है तथापि प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा हुई किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण अथवा चुक हेत् उत्तरदायी नहीं होंगे।

3) विक्रय जो है वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ई—नीलामी मंच के माध्यम से 08.06.2022 को 11.00 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। (4) विक्रय के विस्तत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com का संदर्भ ग्रहण करें।

दिनांकः 02.05.2022 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक प्रतिभूत ऋणदाता



एसएएम शाखा लखनऊ, द्वितीय तल, शारदा टॉवर, कपुरथला, अलीगंज, लखनऊ – 226021, टेलीफोन नं.: 9610447251

ई– मेल: samvlucknow@unionbankofindia.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत)

प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन), 2002 के नियम 8(6) के परन्तक संपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनगर्जन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेत ई-नीलामी विक्रय नोटिस। सर्वसाधारण को विशेषकर ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पतियां प्रतिभृति के रूप में हमारे बैंक के पास दृष्टिबंधक 🗸 बंधक है जिसका **सांकेतिक कब्जा** यूनियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय दिनांक 20.05.2022 (समय: प्रात: 11 बजे से सायं 05 बजे तक) को होने वाली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर लिंक उपलब्ध है। वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां ऑनलाइन ई-नीलामी में वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के द्वारा दिनांक 20.05.2022 को

ई—नीलामी में "जहाँ है", "जैसा है", "जो कुछ भी है" और बिना किसी सहारे के आधार पर नीचे वर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों से सम्बन्धित उनकी देनदारी की वसूली के लिए

यनियन बैंक ऑफ इंडिया (सरक्षित लेनदार) के द्वारा किया जायेगा। आरक्षित धनराशि एवं ईएमडी राशि नीचे वर्णित है। ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए

ऋणियों एवं जमानतदारों से सम्बन्धित उनकी देनदारी, ब्याज एवं अन्य कोई व्यय की वसूली के लिए की जायेगी। ऑनलाइन ई--नीलामी के माध्यम से वेबसाइट: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, नीलामी की तिथि व समय: 20.05.2022, समय: प्रात: 11 बजे से सायं 05:00 बजे (10 मिनट के असीमित अतिरिक्त समय सहित),

क्र. सं.	2000	ई-नीलामी हेतु सम्पत्ति का विवरण	 आरक्षित घनराशि ई.एम.डी. बड़ी हुई घनराशि 	 सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क सूत्र ई-मेल ऑईडी शाखा प्रमुख/सम्पर्क 	ब्याज एवं अन्य खर्च के साथ बकाया धनराशि	भार का विवरण सांकेतिक / भौतिक कब्जा
1,	मेसर्स नीलकंठ इंडस्ट्रीज, नीलकंठ विला, डी-31 गोखले मार्ग, पर्ल कोर्ट अपार्टमेंट के पास, लखनऊ, पिन- 226001 श्री स्विप्नल जुनेजा, निवासी नीलकंठ विला, डी-31 गोखले मार्ग, पर्ल कोर्ट अपार्टमेंट के पास, लखनऊ -226001 श्रीमती प्रियंका जुनेजा, निवासी नीलकंठ विला, डी-31 गोखले मार्ग, पर्ल कोर्ट अपार्टमेंट के पास, लखनऊ -226001	अमौसी, लखनऊ में स्थित है।		1. प्राधिकृत अधिकारी से विमर्शानुसार 2. ललित मोइन जोशी— 9610447251 3. samvlucknow @ unionbank ofindia.com 4. सुमित कुमार— 9990508292	रू. 2,45,56,036.97 दिनांक 31.12.2021 सें प्रभावी ब्याज, लागत एवं खर्चे	प्राधिकृत अधिकारी को संज्ञान नहीं सांकेतिक कब्जा
2.	मेसर्स नीलकंठ सर्जिकल एम्पोरियम, नीलकंठ विला, डी-31 गोखले मार्ग, पर्ल कोर्ट अपार्टमेंट के पास, लखनऊ, पिन- 226001 मेसर्स नीलकंठ सर्जिकल एम्पोरियम, कार्यालय 122/33 एवं 33ए सिरसिथ रोड, दयानिदान पार्क के सामने, लालबाग, लखनऊ, पिन- 226001 श्री स्विप्नल जुनेजा, निवासी नीलकंठ विला, डी-31 गोखले मार्ग, पर्ल कोर्ट अपार्टमेंट के पास, लखनऊ -226001 श्रीमती प्रियंका जुनेजा, निवासी नीलकंठ विला, डी-31 गोखले मार्ग, पर्ल कोर्ट अपार्टमेंट के पास, लखनऊ -226001	जुनेजा के स्वामित्व में व्यावसायिक भूमि व भवन स्थित भवन सं. 122/33 एवं 122/33ए (पहले यह संख्या 122/14/1-ए एवं 122/14/1-बी थी) फोर्सिथ रोड, दयानिदान पार्क, लालबाग, कैसरबाग, लखनऊ। संपत्ति संख्या 2- श्रीमती प्रियंका जुनेजा के स्वामित्व में भूतल पर	2. ক. 15.00 লাख 3. ক. 0.50 লাख 1. ক. 90.00 লাख 2. ক. 9.00 লাख	1. प्राधिकृत अधिकारी से विमर्शानुसार 2. ललित मोहन जोशी— 9610447251 3. samvlucknow @ u n i o n b a n k ofindia.com 4. सुमित कुमार— 9990508292	रू. 4,84,29,493.93 दिनांक 31.12.2021 से प्रभावी व्याज, लागत एवं खर्चे	प्राधिकृत अधिकारी को संज्ञान नहीं सांकेतिक कब्जा

इच्छुक खरीदार / बोलीकर्ता से अनुरोध है कि ई-नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी की बोली प्रस्तुत करने के पूर्व ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा अन्य ब्यौरे को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर अवश्य देख लें। संभावित खरीदार संपत्तियों के विवरण खोजने और देखने के लिए पोर्टल / वेबसाइट- https://ibapi.in/ का उपयोग कर सकते हैं। बोलीदाता संपत्ति की खरीद के लिए वेबसाइट http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर भी जा सकते हैं। संभावित खरीदार खरीदार पंजीकरण से संबंधित प्रश्नों के लिए या पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए सीधे एमएसटीसी हेल्पडेस्क नंबर— 033—22901004 पर कॉल कर सकते हैं या अपने प्रश्नों को ibapiop@mstcecommerce.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइन किए गए एमएसटीसी अधिकारियों के संपर्क नंबर महत्वपूर्ण लिंक के तहत खरीदार लॉगिन पेज पर उपलब्ध हैं। ईएमडी ट्रांसफर / ईएमडी रिफंड या किसी वित्त एवं खाते से संबंधित मुद्दों में आईबीएपीआई पर जाये। बोलीदाता सीधे हेल्प डेस्क नंबर 033-22901004 / 033-22895064 पर संपर्क कर सकते हैं या bbarik@mstcindia.co.in, shembram@mstcindia.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं। सम्पर्क विवरण लिंक https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ के लॉगिन पेज के हेल्प डेस्क मेनू में भी उपलब्ध कराए गए हैं। , ऑन लाइन नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक खरीदार / बोलीकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है। विक्रय से संबंधित नियम व शर्ते प्रतिमृतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन होगें।

Security Interest (Enforcement) Rule 2002 के नियम 8(6) संपठित नियम 9(1) के अन्तर्गत 15 दिन की बिक्री सूचना इसे Security Interest (Enforcement) Rule: 2002 के नियम 8(6) संपठित नियम 9(1) के अन्तर्गत उक्त तिथि को की जा रही ई- नीलामी / बिक्री के

सम्बन्ध में उक्त ऋण के बकाया राशि वाले ऋणियों / जमानतकर्ताओं को जारी किया हुआ नोटिस भी माना जाये।

(जोपलिंग रोड) लखनऊ।

नोट- इस विज्ञापन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अंग्रेजी वाले विज्ञापन को मान्यता दी जायेगी।

स्थानः लखनऊ

दिनांक : 03.05.2022

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda de trees to dish

राजिन्द्र नगर गाजियाबाद शाखा 84, प्राईम प्लाजा, राजिन्दर नगर, सैक्टर-5, साहिबाबाद, गाजियबाद-201005 ईमेल: rajind@bankofbaroda.co.in

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभृतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना / ई—नीलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण			
1	मैसर्स एसवी डाइंग (उघारकर्ता) श्री श्याम सुंदर पुत्र श्री राम गोपाल (प्रोपराईटर)	मांग सूचना की तारीख 28-04-2022	सेमी जिगर डाइंग मशीन और कपड़े सुखाने की मशीन का दृष्टिबंधक			
	मकान नं. 30 / 8 एच बस्ती, करावल नगर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली 110094 <u>औरः</u> मकान नं. 10, केएच नं. 139, गली नं. 9, करावल नगर, दिल्ली—110094 <u>औरः</u> मकान नं 10 गली नं. 2, मुखिया, मार्केट, करावल नगर, दिल्ली 110094 2. श्रीमती विनीता सिंह पत्नी श्री श्याम सुंदर (गारंटर), मकान नं. सी—2, सी ब्लॉक, गली नं. 2, अमर विहार, करावल नगर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली—110094 <u>औरः</u> मकान नं. 10, केएच नं. 139, गली नं. 9, करावल नगर, दिल्ली 110094 <u>औरः</u> मकान नं. 10 गली नं. 2, मुखिया, मार्केट, करावल नगर, दिल्ली—110094 <u>औरः</u> मकान नं. 30 / 8 एच बस्ती, करावल नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली—110094	Rs. 12,80,178.99 + Unapplied Interest + Interest Reserved+ Legal Charges +Other Charges	स्टॉक इन ट्रेड का दृष्टिबंधक / बुक डेव्टस / फर्मों की लेख पुस्तकों में धारित प्राप्तियां (प्राथमिक) साम्यिक बंधक सम्पत्ति बिक्री विलेख दिनांक 22.02.2010 को ज द्वारा यह सम्पत्ति श्याम सुंदर पुत्र श्री राम गोपाल के नाम पर है। प्लॉट नं. 56 और 61, खसरा नं. 526, सागर एनक्लेव, गाँव बंधाल परगना लोनी, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 113 वर्ग ग (कोलेटरल) चौहरी: पूरब में – 20फीट रोड, पश्चिम में – 40फीट रोड, उत्तर – अन्य व्यक्ति का प्लॉट, दक्षिण में – अन्य व्यक्ति का प्लॉट			
	ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 31-03-2021		St. 4 -1130 37 305, 400 1 1 - 50 4 -1130 37 305			
2	श्री मनु शर्मा पुत्र जय भगवान शर्मा (उधारकर्ता) नेताजी सुमाष सदन, 4 / 66, सेक्टर—02, राजिंदर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद,	मांग सूचना की तारीख 06-04-2022	दृष्टिबंधक वाहन Hyundai Verna Variant-verna 1.6 CRDI Auto SX+, चेसिस नं. MALC841DMHM013057, इंजन नं.			
	उत्तर प्रदेश—201005 श्रीमती रंजना पचौरी (गारंटर) एम 2 / 6 शिक्षा अपार्टमेंट सेक्टर—6, वसुंधरा, गाजियाबाद 201012, यू.पी.	रु. 8,62,130.65 दिनांक 06.04.2022 तक	D4FBHM406660, पंजीकरण नं. UP14DK1005, कलर - Slee Silver.			
	ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-12-2021	(दिनांक 31.03.2022 तक ब्याज की गणना)				

एवं खर्चे आदि सहित मांग सुचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें

प्राधिकत अधिकारी. बैंक ऑफ बडौदा दिनांक: 02.05.2022, स्थान: दिल्ली

Public Announcement

This public announcement is for information purposes only and not for publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 01, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the Securities Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Regulations, 2018) ("SEBI (ICDR) Regulations").



NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identification Number: L15510MH2013PLC249458

Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated October 22, 2013 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.On July 18, 2016 our Company acquired the business of proprietorship concerns of our promoter Mr. Pravin Kumar Choudhary viz. M/s. Navkar Processors through Takeover agreement. Consequently, business of this proprietorship firm was merged into our company. Subsequently our Company was converted into a public limited company pursuant to special resolution passed by the members in extraordinary general meeting held on January 19, 2017 and the name of our Company was changed to "Nakoda Group" of Industries Limited" vide a Fresh Certificate of Incorporation dated February 06, 2017, issued by Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.

Registered Office: 239, Bagad Ganj, Nagpur - 440 008, Maharashtra, India Contact Person: Mr. Pratul Bhalchandra Wate, Company Secretary and Compliance Officer Tel: 0712 2778824 | Email-ID: info@nakodas.com | Website: www.nakodas.com

PROMOTERS: MR. PRAVIN NAVALCHAND CHOUDHARY AND MR. JAYESH CHOUDHARY

ISSUE OF UPTO 27.83.625* EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 120 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 110 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 3,340.35 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 01(ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 04 (FOUR) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS APRIL 1, 2022 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 12.00 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 123 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED (THE COMPANY)

> RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE OPEN | ISSUE CLOSES ON MONDAY, MAY 16, 2022

CORRIGENDUM NOTICE TO THE LETTER OF OFFER DATED APRIL 01, 2022 The Letter of Offer shall be read in conjunction with this Corrigendum and the Letter of Offer stands suitably modified to the extent of information set out above. The information in this Advertisement supersedes the information in the Letter of Offer to the extent inconsistent with the information in the Letter of Offer. Other terms and

conditions of the Rights Issue as provided in the Letter of Offer remain the same. *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues Simple, Safe, Smart way of **ASBA** by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further

details check section on ASBA below.

dated December 30, 2009, CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 ("SEBI ASBA Circulars"), all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of Letter of Offer. In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue Circular and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details, please see "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of the Letter of Offer.

LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform to the eligible shareholders that in order to provide a better opportunity to shareholders to execute their rights in the Rights Issue, the Rights Issue Committee of the Board of Directors in their meeting held on Friday, April 29, 2022 has decided to extend the last date for making an

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Rights Issue Application Forms is extended upto Monday, May 16, 2022 (Issue Closing date). If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by the Board of Directors or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Board of Directors or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, "Basis of Allotment" on page 146 of the Letter of Offer.

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

dematerialized form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date. PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERSWHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING

DATE AS ON OR BEFORE MAY 12,2022 SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS. WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM. ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ELIGIBLE TO APPLY IN THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE NEW ISSUE

CLOSING AS MONDAY, MAY 16, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, ENTITLEMENT LETTER, APPLICATION FORMAND STATUTORY ADVERTISEMENT EXCEPT FOR THE MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE AND THE RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMELINE OF THE POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF CHANGE IN THE ISSUE CLOSING DATE.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE SHRENI

SHARES PVT. LTD. SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED

A-102, Sea Lord CHS, Above Axis Bank, Ram Nagar, Borivali (West), Mumbai - 400 092, Maharashtra, India

Telephone: 022 - 28088456 Email: shrenishares@gmail.com | Website: www.shreni.in Investor grievance: info@shreni.in

Contact Person: Kritika Rupda SEBI Registration Number: INM000012759

BIGSHARESERVICES PRIVATE LIMITED

1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opposite Vasant Oasis, MakwanaRoad, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 059 Maharashtra, India | Contact Details: 022 – 6263 8200 E-mail: rightsissue@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com Investor grievance: investor@bigshareonline.com Contact person: Vijay Surana

SEBI Registration No: INR000001385

COMPLIANCE OFFICER

Mr. Pratul Bhalchandra Wate

239, Bagad Ganj, Nagpur- 440 008,

Telephone: 0712 2778824

Email: cs@nakodas.com

Equity Shares applied for, amount buckno. ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case

For FOR NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED

Pratul Bhalchandra Wate Company Secretary and Compliance Officer

Our Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the SEBI, NSE and BSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com; the website of the Company at www.nakodas.comand the website of the Lead Manager at www.shreni.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 17 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in

Place: Nagpur

Date: April 29, 2022

the United States.

may be, was submitted by the ASBA.

REGISTRAR TO THE ISSUE

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating

Application - Make use of it !!! FACILITIES FOR APPLICATION IN THIS ISSUE: In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Circulars no. SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12

application for the Rights Equity Shares of the Company by fourteen (14) daysi.e., from Monday, May 02, 2022 to Monday, May 16, 2022.

COMPANY SECRETARY AND

to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, givingfull details such as name address of the applicant, number of

Our Company was incorporated as "Nakoda Group of Industries Private Limited" at Nagpur, Maharashtra, as a Private Limited Company under the provision of

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in

Maharashtra, India

www.readwhere.com

FINANCIAL EXPRESS



BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED

(Corporate Identity Number: L15412WB1918PLC002964) Registered Office: 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 017 Tel: +91 33 22872439/2057, +91 80 37687100; Fax: +91 33 22872501, +91 80 37687486 Website: www.britannia.co.in; E-mail id:investorrelations@britindia.com

			(₹	in Crores)	
	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended	
Particulars	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
Total revenue from operations	3,550.45	3,130.75	14,136.26	13,136.14	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	518.91	492.65	2,079.31	2,514.22	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	518.91	492.65	2,078.33	2,513.61	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	377.95	360.07	1,515.98	1,850.59	
Total comprehensive income for the period [Comprising Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	381.15	363.54	1,522.27	1,849.09	
Equity share capital	24.09	24.09	24.09	24.09	
Other equity	2,534.01	3,523.57	2,534.01	3,523.57	
Net worth	2,558.10	3,547.66	2,558.10	3,547.66	
Earnings per share (face value of ₹ 1 each) (for continuing and discontinued operations) -	EAV-			0.	
(a) Basic (₹)	15.77	15.13	63.31	77.43	
(b) Diluted (₹)	15.77	15.12	63.31	77.40	
Debenture redemption reserve	180.24	180.24	180.24	180.24	
Capital redemption reserve	3.96	3.96	3.96	3.96	
Securities premium account	244.98	244.98	244.98	244.98	
Paid-up debt capital	2,481.20	2,121.51	2,481.20	2,121.51	
Debt equity ratio	0.97	0.60	0.97	0.60	
Debt service coverage ratio	14.33	18.25	13.61	20.12	
Interest service coverage ratio	16.38	21.80	15.41	23.67	

(₹ in						
B-d-1	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended		
Particulars	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021		
Total revenue from operations	3,336.45	2,952.64	13,371.62	12,378.83		
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	550.70	478.67	2,145.12	2,379.44		
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	550.70	478.67	2,145.12	2,379.44		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	413.43	353.46	1,603.19	1,760.03		
Total comprehensive income for the period [Comprising Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	413.92	356.21	1,603.68	1,762.45		
Equity share capital	24.09	24.09	24.09	24.09		
Other equity	2,378.45	3,295.44	2,378.45	3,295.44		
Net worth	2,402.54	3,319.53	2,402.54	3,319.53		
Earnings per share (face value of ₹ 1 each) (for continuing and discontinued operations) -		18 18				
(a) Basic (₹)	17.16	14.67	66.56	73.12		
(b) Diluted (₹)	17.16	14.67	66.56	73.09		
Debenture redemption reserve	180.24	180.24	180.24	180.24		
Capital redemption reserve	3.96	3.96	3.96	3.96		
Securities premium account	244.98	244.98	244.98	244.98		
Paid-up debt capital	2,178.74	1,798.02	2,178.74	1,798.02		
Debt equity ratio	0.91	0.54	0.91	0.54		
Debt service coverage ratio	18.73	24.14	17.00	25.18		
Interest service coverage ratio	18.74	24.34	17.07	25.33		

- 1. The above is an extract of the detailed format of the audited financial results for the guarter and year ended 31 March 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2022 is available on the website of the Stock Exchanges - www.nseindia.com and www.bseindia.com and is also available on the Company's website - www.britannia.co.in.
- 2. The pertinent disclosures for the guarter and year ended 31 March 2022 in relation to the other line items referred in regulation 52(4) of the LODR regulations, have been incorporated in the full format of the unaudited results filed with the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') and BSE Ltd ('BSE') and can be accessed on the website of the Stock Exchanges - www.nseindia.com and www.bseindia.com.
- 3. The audited financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('The Act') read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 and 52 of the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- 4. The operating segment of the Company is identified to be "Foods", as the Chief Operating Decision Maker reviews business performance at an overall company level as one segment. Therefore, the disclosure as per Regulation 33(1)(e) read with Clause (L) of Schedule IV of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is not applicable to the Company.
- 5. The above audited consolidated and standalone financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors on 2 May 2022.
- The Board of Directors of the Company has recommended final dividend of ₹ 56.50 per equity share of face value of ₹ 1 each for the financial year ended 31.
- 7. The results of the Company for the year ended 31 March 2022, have been audited by the statutory auditors and they have issued an unmodified audit report on the same. The audit report of the statutory auditors is being filed with the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Ltd ("BSE") and is also available
- 8. The figures for the quarter ended 31 March 2022 and 31 March 2021 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial years and the published unaudited year to date figures upto third guarter of the respective financial years. Also the figures upto the end of the third guarter were only
- reviewed and not subjected to audit Other income in standalone financial results for the guarter and year ended 31 March 2022 includes dividend of ₹ 50.36 Crs and ₹146.33 Crs respectively.
- received from the subsidiaries of the Company. 10. Exceptional item in consolidated financial results for the above reported periods pertain to voluntary retirement & retrenchment costs incurred in one of the subsidiaries of the Company.
- 11. The Board of Directors and the Shareholders at their meeting held on 30 July 2021 and 6 September 2021 respectively, approved the termination of Britannia Industries Limited Employee Stock Option Scheme (ESOS Scheme) and replaced it with Britannia Industries Limited Phantom Option Scheme 2021 (BIL POS 2021). Consequently, 5,83,334 Stock Options granted under ESOS Scheme that were either Vested but not exercised or were Unvested have been replaced with Phantom Options on similar terms and conditions. Pursuant to this transition, in accordance with IND AS 102, cost of ₹ 18.51 Crs and ₹ 32.46 Crs have been
- debited to Employee benefits expense and Reserves respectively, during the guarter ended 30 September 2021. 12. Formulae for computation of ratios are as follows:
- (a) Debt equity ratio = Debt / Net worth
- [Debt or Paid-up debt capital: Non-current borrowings + Non-current lease liabilities + Current borrowings + Current lease liabilities]
- [Net worth: Paid-up equity share capital + Other equity] (b) Debt service coverage ratio = Profit before exceptional items, tax and finance cost/(Finance cost + Principal repayment made for Non-current borrowings and
- Non-current lease liabilities) (c) Interest service coverage ratio = Profit before exceptional items, tax and finance cost / Finance cost
- (d) Current ratio = Current assets / Current liabilities
- (e) Long term debt to working capital = (Non-current borrowings (including current maturity of non-current borrowings) + Non-current lease liabilities (including current maturity of non-current lease liabilities)) / (Current assets less current liabilities (excluding current maturity of Non-current borrowing and non-current (f) Current liability ratio = Total current liabilities / Total liabilities
- (g) Total debt to total assets = Debt / Total assets
- (h) Debtors turnover = Annualised sale of goods / Average Gross Trade receivables (before provision) (i) Inventory turnover = Annualised sale of goods / Average Inventories of Finished stock
- (j) Operating margin = (Profit before exceptional items & tax Other income + Finance cost) / Total revenue from operations (k) Net Profit margin = Net Profit for the period / Total Income
- 13. The listed 3-year non-convertible bonus debentures of ₹ 720.95 Crs having a coupon rate of 8% p.a. are secured by way of pari passu floating charge on the current assets of the Company and the asset cover as on 31 March 2022 exceeds one hundred percent of the principal amount. The interest is payable annually and the interest amount due for the second year was paid on 30 August 2021, the next working date after the due date of 28 August 2021, being a bank holiday, as per the terms of issue of the bonus debentures. The payment of interest for the third year along with the redemption of the Principal of ₹ 30 per debenture of the non-convertible bonus debentures will be made on the due date, i.e, 28 August 2022, as per the terms of issue of the bonus debentures. 14. The listed 3-year unsecured non-convertible bonus debenture of ₹ 698.52 Crs has a coupon rate of 5.5% p.a. The interest is payable annually and the first due
- date for payment of interest is 3 June 2022.
- 15. Previous period figures have been re-grouped / re-classified wherever necessary, to conform to current period's classification in order to comply with the requirements of the amended Schedule III to the Companies Act, 2013 effective 1 April 2021.

On behalf of the Board For Britannia Industries Limited

Place : Bengaluru Date : 2 May 2022 Nusli N Wadia Chairman





CIN: L65190MH2004GOI148838

Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 Tel.: (022) 66552779 / 66553336 Fax: (022) 2218 2352, website: www.idbibank.in, email id: idbiequity@idbi.co.in

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

1	J		Stand	lalone			Conso	lidated	NO.
SI. No.	Particulars	Quarter ended 31-03-2022 (Audited)	Quarter ended 31-03-2021 (Audited)	Year ended 31-03-2022 (Audited)	Year ended 31-03-2021 (Audited)	Quarter ended 31-03-2022 (Audited)	Quarter ended 31-03-2021 (Audited)	Year ended 31-03-2022 (Audited)	Year ended 31-03-2021 (Audited)
1	Total Income from Operations (net)	5,444.08	6,894.86	22,985.19	24,496.80	5,532.94	6,984.45	23,238.41	24,743.51
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	843.98	422.64	3,608.62	2,368.62	893.34	466.79	3,720.47	2,484.41
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	843.98	422.64	3,608.62	2,368.62	893.34	466.79	3,720.47	2,484.41
4	Net Proft / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	690.60	512.20	2,439.27	1,359.46	734.65	629.05	2,533.67	1,513.97
5	Equity Share Capital	10,752.40	10,752.40	10,752.40	10,752.40	10,752.40	10,752.40	10,752.40	10,752.40
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	22,441.82	19,777.22	22,441.82	19,777.22	23,351.54	20,594.19	23,351.54	20,594.19
7	Securities Premium Account	50,719.75	50,719.75	50,719.75	50,719.75	50,719.70	50,732.28	50,719.70	50,732.28
8	Net Worth (excluding Revaluation Reserve & Intangible Assets)	19,728.51	15,950.92	19,728.51	15,950.92	20,625.11	16,755.32	20,625.11	16,755.32
9	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	14,344.98	15,908.05	15,908.05	15,908.05	14,344.98	15,908.05	14,344.98	15,908.0
10	Outstanding Redeemable Preference Shares		100			-	*		
11	Debt Equity Ratio (excluding revaluation reserve & Intangibles)(in times)	0.73	1.00	0.73	1.00	0.70	0.95	0.70	0.95
12	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) in ₹ (for continuing and discontinued operations before & after extraordinary items) (not annualised)								
	(i) Basic	0.64	0.48	2.27	1.30	0.68	0.59	2.36	1.4
	(ii) Diluted	0.64	0.48	2.27	1.30	0.68	0.59	2.36	1.4
13	Capital Redemption Reserve			-					
14	Debenture Redemption Reserve	9.0	- 1		187	-		8	1
	4	4							4

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (s) and the listed entity, websites (www.nseindia.com,www.bseindia.com and www.idbibank.in).

2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (NSE & BSE) and can be accessed on the URL (www.nseindia.com,www.bseindia.com and www.idbibank.in).

Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income are not furnished as Ind AS is not yet made applicable to banks.

By order of the Board (Rakesh Sharma)

Place: Mumbai (Suresh Khatanhar) (J. Samuel Joseph) Managing Director & CEO Date: May 02, 2022 Deputy Managing Director Deputy Managing Director

Public Announcement

This public announcement is for information purposes only and not for publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 01, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the Securities Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI (ICDR) Regulations").

NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED Corporate Identification Number: L15510MH2013PLC249458

Our Company was incorporated as "Nakoda Group of Industries Private Limited" at Nagpur, Maharashtra, as a Private Limited Company under the provision of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated October 22, 2013 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.On July 18, 2016 our Company acquired the business of proprietorship concerns of our promoter Mr. Pravin Kumar Choudhary viz. M/s. Navkar Processors through Takeover agreement. Consequently, business of this proprietorship firm was merged into our company. Subsequently our Company was converted into a public limited company pursuant to special resolution passed by the members in extraordinary general meeting held on January 19, 2017 and the name of our Company was changed to "Nakoda Group" of Industries Limited" vide a Fresh Certificate of Incorporation dated February 06, 2017, issued by Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.

> Registered Office: 239, Bagad Ganj, Nagpur - 440 008, Maharashtra, India Contact Person: Mr. Pratul Bhalchandra Wate, Company Secretary and Compliance Officer Tel: 0712 2778824 | Email-ID: info@nakodas.com | Website: www.nakodas.com

PROMOTERS: MR. PRAVIN NAVALCHAND CHOUDHARY AND MR. JAYESH CHOUDHARY

ISSUE OF UPTO 27.83.625* EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 120 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 110 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 3,340.35 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 01(ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 04 (FOUR) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS APRIL 1, 2022 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 12.00 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 123 OF THE LETTER OF OFFER. *Assuming full subscription

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED (THE COMPANY)

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE OPEN | ISSUE CLOSES ON MONDAY, MAY 16, 2022 CORRIGENDUM NOTICE TO THE LETTER OF OFFER DATED APRIL 01, 2022

The Letter of Offer shall be read in conjunction with this Corrigendum and the Letter of Offer stands suitably modified to the extent of information set out above. The information in this Advertisement supersedes the information in the Letter of Offer to the extent inconsistent with the information in the Letter of Offer. Other terms and conditions of the Rights Issue as provided in the Letter of Offer remain the same.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!

under the section, "Basis of Allotment" on page 146 of the Letter of Offer.

*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below. FACILITIES FOR APPLICATION IN THIS ISSUE: In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Circulars no. SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12

Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of Letter of Offer. In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue Circular and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details, please see "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of the Letter of Offer.

dated December 30, 2009, CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 ("SEBI ASBA Circulars"), all

LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform to the eligible shareholders that in order to provide a better opportunity to shareholders to execute their rights in the Rights Issue, the Rights Issue Committee of the Board of Directors in their meeting held on Friday, April 29, 2022 has decided to extend the last date for making an application for the Rights Equity Shares of the Company by fourteen (14) daysi.e., from Monday, May 02, 2022 to Monday, May 16, 2022.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Rights Issue Application Forms is extended upto Monday, May 16, 2022 (Issue Closing date). If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by the Board of Directors or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Board of Directors or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialized form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERSWHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE AS ON OR BEFORE MAY 12,2022 SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ELIGIBLE TO APPLY IN THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE NEW ISSUE CLOSING AS MONDAY, MAY 16, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, ENTITLEMENT LETTER, APPLICATION FORMAND STATUTORY ADVERTISEMENT EXCEPT FOR THE MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE AND THE RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMELINE OF THE POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF CHANGE IN THE ISSUE CLOSING DATE.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE SHRENI

SHARES PVT. LTD SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED

SEBI Registration Number: INM000012759

may be, was submitted by the ASBA.

A-102, Sea Lord CHS, Above Axis Bank, Ram Nagar, Borivali (West), Mumbai - 400 092, Maharashtra, India

Telephone: 022 - 28088456 Email: shrenishares@gmail.com | Website: www.shreni.in Investor grievance: info@shreni.in Contact Person: Kritika Rupda



BIGSHARESERVICES PRIVATE LIMITED

1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opposite Vasant Oasis, MakwanaRoad, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 059 Maharashtra, India | Contact Details: 022 - 6263 8200 E-mail: rightsissue@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com

Investor grievance: investor@bigshareonline.com

REGISTRAR TO THE ISSUE



Maharashtra, India Telephone: 0712 2778824

239, Bagad Ganj, Nagpur- 440 008,

COMPANY SECRETARY AND

COMPLIANCE OFFICER

Email: cs@nakodas.com

Equity Shares applied for, amount buckno. ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case For FOR NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED

Place: Nagpur

Date: April 29, 2022

Pratul Bhalchandra Wate Company Secretary and Compliance Officer

Our Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the SEBI, NSE and BSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com; the website of the Company at www.nakodas.comand the website of the Lead Manager at www.shreni.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 17 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States.

Contact person: Vijay Surana

SEBI Registration No: INR000001385 Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating

to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, givingfull details such as name address of the applicant, number of

financialexp.er



मंगळवार, दिनांक ३ मे २०२२

जिंदगी कैसी है पहेली.

सवर्णयगातील समध्र गाणी या संकल्पनेवर आधारित तुझे बुलाये या कार्यक्रमाने रसिकांची मनं जिंकली. पिया बिन, दिल तो है दिल, आ लौट स्मृती शुभांगी, पारिजात, मंगेश, अधिक रंगतदार व श्रवणीय झाला स्वरांगिनी संगीत संस्थेतर्फे हा सुरेल नजराणा संगीतप्रेमींसमोर ३० एप्रिल जिंदगी कैसी है पहेली. दिलकी कलाकारांनी गाऊन बहारदार मैफल सायकाळी ६ वाजता सायटिफिक सभागृहात सादर

बहसंख्येने रसिकांची उपस्थिती अशी २९ गीतं गायिका रेखा साने ऑक्टोपॅडवर महेंद्र वाट्ळकर व उपस्थिती होती.

नजरसे, मन क्युं बहका, देखा एक ख्वाब, मिलती है जिंदगीमे मोहब्बत, वादा रहा प्यारसे प्यारका सिंथेसाइजरवर मंगेश पटले,

के आजा मेरे मीत, तुझे बुलाये, आश्तोष, प्रकाश डहाके या गायक सादर केली.

त्याना तबल्यावर पकज यादव,

चित्रपटाच्या पद्मजा, श्रद्धा, मनिषा, अनघा, सितार वर ऋगवेद पांडे यांना समर्पक मुवर्णयुगातील पिया बावरी, दिल लिली सोनिया, वंदना, सुचिता, साथसंगत केली. श्वेता शेलगावकर हम हम करे, दिवाना हआ बादल, वैशाली के, अश्विनी, वैशाली पी, यांच्या रसाळ निवेदनानाने कार्यक्रम सुनीता सुधीर वालदे या प्रमुख अतिथी होत्या. संकल्पना प्रा. पद्मजा सिन्हा यांची तर आयोजन व संयोजन मनिषा घुसे यांचे होते. बहसंख्येने रसिकांची

र-वरागिनीचा सुरेल नजराणा

वीजवाहिन्या २ वर्षात होणार भूमिगत : नितीन राऊत

महाराष्ट्र दिनाचा कार्यक्रम थाटात संपन्न

नागपुर. महाराष्ट्रातच नव्हे तर वाहिनीचे, केबल पूर्णत्वास देण्यात आहे. राज्याला भारनियमनाची झळ पोहोच् नये यासाठी केंद्राने सहकार्य करावे असे आवाहन पालकमंत्री दिनाच्या मुख्य सोहळ्यात केले.

देशातील १७ राज्ये वीज संकटाचा येतील. तसेच प्रत्येक छतावर रूप टॉप सामाना करीत आहेत. औष्णिक वीज सोलर सिस्टिम साठी प्राधान्य दिले केंद्रासाठी आवश्यक कोळशाचा जाईल, असे सांगून त्यांनी नव्या पुरवठा सर्वस्वी केंद्राच्या अखत्यारीत नागपूरची कल्पना विषद केली. स्वतंत्र भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पर्वावर महाराष्ट्राच्या ६२ व्या वर्धापन दिनाला त्यांनी रविवारी नितीन राऊत यांनी कस्तुरचंद पार्क नागपूर येथील ऐतिहासिक कस्तुरचंद आयोजित महाराष्ट्र पार्कवर ध्वजारोहण केले. त्यानंतर जिल्ह्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या वीजेची बचत व चोरीवर नियंत्रण भाषणात शंभर टक्के योजनांची मिळविण्यासाठी ऊर्जामंत्री म्हणून अमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न नागपुरात दोन वर्षात भूमिगत वीज करण्याचे आवाहन त्यांनी यंत्रणेला



केले. यावेळी विभागीय आयुक्त माधवी खोडे, पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, जिल्हाधिकारी आर. विमला, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., विशेष पोलीस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

योगेश कुंभेजकर, यांच्यासह प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी

उद्योगाला बळ मिळावे यासाठी

ठिकाणची गुंतवणूक वाढावी यासाठी कंपन्या गुंतवणूक करत असल्याचेही येत्या ऑक्टोबर महिन्यात एडवांटेज त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील आघाडी महाराष्ट्र कार्यक्रम घेतला जाणार आहे. याशिवाय इन्ही स्टेशन, द्चाकी व ओबीसी, अल्पसंख्यांक व अन्य सर्व चारचाकी वाहनांचे प्रदर्शने आयोजित करण्यात येईल असेही ते म्हणाले. आखल्या आहेत. या योजनांची शंभर

मिहान संदर्भात शासन गंभीर असून या मिहानमध्ये रिलायन्स व अदाणी या सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, समुदायासाठी वेगवेगळ्या योजना

विविध क्षेत्रातील पुरस्कारांचे वितरण

कार्यक्रमात पोलीस विभाग, क्रीडा व महसूल विभागातील उल्लेखनिय कार्य केलेल्या अधिकारी, कर्मचारी तसेच संस्थांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पोलीस आयुक्तालयातील अतुल सबनीस. जयेश भांडारकर, गजानन कल्याणकर, ओमप्रकाश सोनटक्के, रतन उंबरकर, मोहन शाह, श्रीनीवास मिश्रा, कृष्णकुमार तिवारी, रघुनाथ धुर्वे, दत्तात्रय निनावे, मृदुल नगरे, मनिष टोंगे यांना पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. जिल्हा क्रीडा पुरस्कार डॉ. चेतन महाडिक, निलिमा राऊत, अल्फिया तरन्नम अक्रमखान पठाण, जिल्हा युवा पुरस्कार मोनीष अठ्ठरकर, युक्ती बेहनिया, तर नयन बहु उद्देशिय महिला विकास व तांत्रिक शिक्षण संस्था नागपूर चा सत्कार केला. राजू लोणकर आदर्श तलार्ठ पुरस्काराचे मानकरी ठरले.

टक्के अमलबजावणी हाच आपल्या सुनील केदार, जिल्हाधिकारी आर प्रशासनाचा अजेंडा असेल, असेही ते विमला, पोलीस आयुक्त अमितेश म्हणाले. यावेळी त्यांनी सहकारी मंत्री कुमार यांचे कौतुक केले.

ऑटो पार्किंगच्या वादात जीवघेणा हल्ला

२ मद्यधुंद गुन्हेगारांना ट्रेनने चिरडले

सदर मधील रेल्वेलाइनवर थरार

क्राईम कॉर्नर

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): यशोधरानगर ठाण्यांतर्गत एका वृद्धाने

छतावरून उडी घेत वृद्धाची आत्महत्या

छतावरून उडी घेत आत्महत्या केली. डोमाजी शिवाजी निकोडे (९०) रा.

गोरा कॉलनी, मेहंदीबाग रोड असे मृताचे नाव आहे. निकोडे मानसिकरित्या

पीडित होते. त्यांनी पूर्वीही आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता.

रविवारी सायंकाळी ४ वाजताच्या सुमारास ते घराच्या छतावर गेले आणि

खाली उडी घेतली. कुटुंबीय त्यांना उपचारार्थ रुग्णालयात घेऊन गेले, मात्र

डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. या प्रकरणी मिळालेल्या सूचनेवरून

२ तरुणांनी लावला गळफास

लावन आत्महत्या केली. पहिली घटना यशोधरानगरच्या विनोबा

भावेनगरात घडली, कार्तिक सोनयाराज खत्री (१९) असे मताचे नाव आहे.

कार्तिक प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी होता. शुक्रवारी तो वरच्या माळ्यावरील

आपल्या खोलीत झोपायला गेला. शनिवारी सकाळी ११.३० वाजताच्या

सुमारास कुटुंबीय त्याला उठविण्यासाठी गेले असता तो गळफास

लावलेल्या अवस्थेत आढळला. दुसरी घटना लकडगंजच्या जुनी

मंगळवारी परिसरात घडली. संजय उर्फ छोटू रामकिनक यादव (२०) रा.

गुजरी चौक असे मृताचे नाव आहे. छोटू आचारी होता आणि २० दिवसांपूर्वी

आपल्या मामे भावासोबत कामाच्या शोधात नागपुरला आला होता.

सोमवारी सकाळी छोटूने राहते घरी छताच्या बल्लीला दुपट्टा बांधून गळफास

लावला. दोन्ही घटनांमध्ये आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही.

सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून चोरटा फरार

एका महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचा मंगळसूत्र हिसकावून फरार झाला. ही

घटना शहरातील मुख्यबाजारपेठ असलेल्या इतवारी परिसरात रविवारी रात्री

घडली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी

तहसील पोलिसानी ज्योती संजय पेलागडे (४२) रा. अमरनगर,

भावसार चौकाकडे जात होत्या. चांडक एनएक्स रेडीमेड दुकानासमोर ३०

ते ३५ वर्ष वयोगटातील आरोपी द्वाकी वाहनाने मागून त्यांच्याजवळ

आला. काही समजण्यापूर्वीच त्याने ज्योतीच्या गळ्यातील सोन्याचे

मंगळसूत्र हिसकावले आणि फरार झाला. ज्योतीने आरडा-ओरक्केली,

मात्र आरोपी भरधाव असल्याने काही क्षणात गायब झाला. या घटनेमुळे

परिसरात खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच तहसील पोलिस

घटनास्थळावर पोहोचले. पोलिसांनी अज्ञात आरोपीवर जबरी चोरीचा गुन्हा

रविवारी रात्री ९.१५ वाजताच्या सुमारास ज्योती नंगा पतळा चौकातन

मानेवाडाच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदविला.

तपासली जात आहे.

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): द्चाकी वाहनाने भरधाव आलेला चोरटा

पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): वेगवेगळ्या घटनांमध्ये २ तरुणांनी गळफास

पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

बुडालेल्या दोन गुन्हेगारांना ट्रोनने त्यामुळे दोघांचाही पहाटे १.३० च्या सुमारास सदर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना

: नशेत आकंठ उर्फ अध्दापाव अशी या दोघांची नावे आहेत

झिंग्या आणि अद्धापाव दोघेही घटनास्थळीच मृत्यु झाला. सोमवारी सराईत गुन्हेगार होते. ते चोऱ्या, घरफोड्या रेल्वेलाइनच्या बाजूला रात्रभर विविध घडली. आकाश सुशील मडावी उर्फ अमली पदार्थांचे व्यसन करायचे. झिंग्या आणि नवीन सुनील मसराम नेहमीप्रमाणे रविवारी मध्यरात्र

उलटूनही ते खदान परिसरच्या बाजूल रेल्वेलाइनवर दारू आणि व्हाइटनरची नशा करत बसले होते.

दरम्यान, मध्यरात्रीनंतर १ च्या

सुमारास नागपूरहन बिलासपूरकडे जाणारी रेल्वे गाडी धडधडत आली. या दोघांवरही एवढी नशा चढली होती की त्यांना मृत्यूच्या रूपाने धडधडत आलेल्या यूरेनचेही काही वाटले नाही. ते तसेच बसून राहिले अन् रेल्वेगाडीने झिंग्या आणि अद्धापावला धडक देऊन बऱ्याच अंतरापर्यंत फरफटत नेले. किंकाळी ऐक्न बाजूच्या झोपडपट्टीतील मंडळी धावली. त्यांनी अपघाताचे विदारक दृश्य पाहन पहाटे २ च्या सुमारास सदर पोलिसांना कळविले. ठाणेदार विनोद चौधरी आपल्या सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी

पोहोचले. झिंग्या आणि अद्धापावचे

झिग्या होता तडीपार

झिंग्याच्या गुन्हेगारी वृत्तीचा घरच्यांनाही त्रास असल्याने तो बेवारससारखाच राहत होता. त्याचा गुन्हेगारी अहवाल बघता त्याला यापूर्वी पोलिसांनी तडीपारही केले होते. मात्र तो नागपुरातच राहत होता. अद्धापाव झिंग्याचा खास मित्र होता. तोही गुन्हेगारी वृत्तीचा त्रासाला कंटाळून त्याची आई चंद्रपूरला

मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत पडून होते. पोलिसांनी ते मेयो रुग्णालयात पाठविले. याप्रकरणी सदर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. पुढील

मायलेकाची महिलेला मारहाण

नागपूर: मायलेकाने मिळून शेजारी राहणाऱ्यामहिलेलामारहाणकरूनजखमी केले. ही घटना वाठोडा पोलिस ठाण्यांतर्गत घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी नंदा अजय चांद्रपरकर (४४) रा. अंतजीनगरच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदविला आहे. रमेश रामदास वैरागडे (४०) आणि सुभद्रा रामदास वैरागडे (६५) अशी आरोपी मायलेकांची नावे आहेत.

नागपूर, क्राईम रिपोर्टर. ऑटो पार्क करण्यावरून आणि ऑटो चालवतात. रविवारी सायंकाळी ऑटो पार्क झालेल्या वादात एका तरुणाने दसऱ्यावर चाकूने हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना जरीपटका अखिलेशने आपल्या ऑटोतून चाकू काढला आणि पोलिस ठाण्यांतर्गत घडली. अक्षय विनोद बैसारे (२३) रा. अक्षयवर हल्ला केला. पोटात चाकूने दोनदा भोसकून जीवे गौतमनगर, ख्रिश्चन कॉलनी असे जखमीचे नाव आहे. मारण्याचा प्रयत्न केला आणि फरार झाला. घटनेर्च

करण्यावरून दोघांमध्ये भांडण झाले. या दरम्यान पोलिसांनी अक्षयच्या तक्रारीवरून परिसरातच राहणाऱ्या । माहिती पोलिसांना देण्यात आली. अक्षयला उपचारार्थ अखिलेश उर्फ चारू खोब्रागडे (२५) विरुद्ध गुन्हा रुग्णालयात भरती करण्यात आले. पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. अक्षय आणि अखिलेश एकाच वस्तीत राहतात 👚 नोंदवून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

Public Announcement

herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 01, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the Securities Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

NAKODA GROUP OF INDUSTRIES L

Corporate Identification Number: L15510MH2013PLC249458

Our Company was incorporated as "Nakoda Group of Industries Private Limited" at Nagpur, Maharashtra, as a Private Limited Company under the provision of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated October 22, 2013 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.On July 18, 2016 ou Company acquired the business of proprietorship concerns of our promoter Mr. Pravin Kumar Choudhary viz. M/s. Navkar Processors through Takeover agreement. Consequently, business of this proprietorship firm was merged into our company. Subsequently our Company was converted into a public limited company pursuant to special resolution passed by the members in extraordinary general meeting held on January 19, 2017 and the name of our Company was changed to "Nakoda Group of Industries Limited" vide a Fresh Certificate of Incorporation dated February 06, 2017, issued by Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.

Registered Office: 239, Bagad Ganj, Nagpur - 440 008, Maharashtra, India Contact Person: Mr. Pratul Bhalchandra Wate, Company Secretary and Compliance Officer Tel: 0712 2778824 | Email-ID: info@nakodas.com | Website: www.nakodas.com

PROMOTERS: MR. PRAVIN NAVALCHAND CHOUDHARY AND MR. JAYESH CHOUDHARY

ISSUE OF UPTO 27.83.625* EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 120 PEF EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 110 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"). AGGREGATING UPTO ₹ 3.340.35 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 01(ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 04 (FOUR) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS APRIL 1, 2022 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 12.00 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 123 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED (THE COMPANY)

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED

ISSUE OPEN | ISSUE CLOSES ON MONDAY, MAY 16, 2022 CORRIGENDUM NOTICE TO THE LETTER OF OFFER DATED APRIL 01, 2022

The Letter of Offer shall be read in conjunction with this Corrigendum and the Letter of Offer stands suitably modified to the extent of information set out above. The information in this Advertisement supersedes the information in the Letter of Offer to the extent inconsistent with the information in the Letter of Offer. Other terms and

Simple, Safe, Smart way of

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

A-102, Sea Lord CHS, Above Axis Bank, Ram Nagar, Borivali

Email: shrenishares@gmail.com | Website: www.shreni.in

SHRENI

SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED

Investor grievance: info@shreni.in

may be, was submitted by the ASBA.

Telephone: 022 - 28088456

Contact Person: Kritika Rupda

(West), Mumbai - 400 092, Maharashtra, India

SEBI Registration Number: INM000012759

*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues details check section on ASBA below.

FACILITIES FOR APPLICATION IN THIS ISSUE: In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Circulars no. SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 ("SEBI ASBA Circulars"), all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of Letter of Offer. In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue Circular and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details, please see "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of the Letter of Offer.

LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform to the eligible shareholders that in order to provide a better opportunity to shareholders to execute their rights in the Rights Issue, the Rights Issue Committee of the Board of Directors in their meeting held on Friday, April 29, 2022 has decided to extend the last date for making an application for the Rights Equity Shares of the Company by fourteen (14) daysi.e., from Monday, May 02, 2022 to Monday, May 16, 2022.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Rights Issue Application Forms is extended upto Monday, May 16, 2022 (Issue Closing date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by the Board of Directors or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Board of Directors or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section. "Basis of Allotment" on page 146 of the Letter of Offer. Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as

permitted by the Stock Exchanges or such extended time as permitted by the Stock Exchanges. ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in

dematerialized form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date. PLEASE NOTE THAT THE FLIGIRLE FOLLITY SHAREHOLDERSWHO HOLD FOLLITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FLIRNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE AS ON OR BEFORE MAY 12,2022 SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS

WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM. ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ELIGIBLE TO APPLY IN THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE NEW ISSUE CLOSING AS MONDAY, MAY 16, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, ENTITLEMENT LETTER.

APPLICATION FORMAND STATUTORY ADVERTISEMENT EXCEPT FOR THE MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE AND THE RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMELINE OF THE POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF CHANGE IN THE ISSUE CLOSING DATE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

BIGSHARESERVICES PRIVATE LIMITED

E-mail: rightsissue@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com

SEBI Registration No: INR000001385

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating

to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, givingfull details such as name address of the applicant, number of

Equity Shares applied for, amount buckno. ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case

Contact person: Vijay Surana

REGISTRAR TO THE ISSUE

1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opposite Vasant Oasis,

MakwanaRoad, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 059

Maharashtra, India | Contact Details: 022 - 6263 8200

Investor grievance: investor@bigshareonline.com

Maharashtra Animal & Fishery Sciences University

Engineer, Maharashtra Animal & Fishery Science University, Nagpur.

Providing Supplying and Laying of HDPE pipe line at CBF (unit no. 02) at NVC, Nagpur

Note:- Please note that the detail & all office hours.

> Sd/-(S.G. Ganorkar) University Engineer

Futala Lake Road, Nagpur - 440 001 (M.S.)

TENDER NOTICE

Tender are invited by the University

aspects of work will be seen on website www.mafsu.in only. Any quirres shall be accepted at University Engineer, Maharashtra animal and fishery sciences university, Futala lake road, nagpur during

MAFSU, Nagpur.

For FOR NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED

Mr. Pratul Bhaichandra Wate

239, Bagad Ganj, Nagpur- 440 008,

Maharashtra, India

Telephone: 0712 2778824

Email: cs@nakodas.com

Pratul Bhalchandra Wate

Place: Nagpur Date: April 29, 2022 Company Secretary and Compliance Officer Our Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the SEBI, NSE and BSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com; the website of the Company at www.nakodas.comand the website of the Lead Manager at www.shreni.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 17 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States

नोंदवन तपास सुरू केला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची फुटेज मेश्राम यांनी केली. महिलेशी गैरवर्तन

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): एका व्यक्तीने सोबत काम करणाऱ्या महिलेशी गैरवर्तन करून तिचा विनयभंग केला. ही घटना एमआयडीसी पोलिस ठाण्यांतर्गत घडली. पोलिसांनी ३४ वर्षीय पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपी मुकेश तिरथलाल बोपचे (३९) रा. एमआयडीसी विरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. पीडित महिला आणि मुकेश एमआयडीसी परिसरातील मिठाईच्या कारखान्यात काम करतात. गत २९ एप्रिलला मुकेशने पीडितेशी अश्लील चाळे केले. तिच्यावर मैत्री करण्यासाठी दबाव टाकला. महिलेने नकार दिला असता भांडण केले आणि पाहन घेण्याची धमकी दिली. पीडितेने आपल्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती दिली आणि प्रकरणाची तक्रार पोलिसात करण्यात आली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.

वैमनस्यातून तरुणावर हल्ला

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): महाराजबाग बस थांब्याजवळ ४ तरुणांनी जुन्यावैमनस्यातुन एका तरुणावर हृङ्ला करून गंभीर जखमी केले. या प्रकरणी पोलिसांनी सय्यद हफीज अली रमजान अली (३४) रा. ताजनगर, मानकापूरच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदविला आहे. आरोपींमध्ये अरमान रा. मरियमनगर आणि त्याच्या ३ साथीदारांचा समावेश आहे.

हफीज आणि अरमान यांच्यात जुना वाद आहे. रविवारी दुपारी हफीज महाराजबाग बस थांब्याजवळ बसलेला होता. या दरम्यान आपल्या ३ साथीदारांसह तेथे आला. जुना वाद उकरून काढत हफीजशी भांडण सुरू केले. काठ्यांनी त्याला जबर मारहाण करण्यात आली. जीवे मारण्याची धमकी देऊन आरोपी फरार झाले. हफीजने पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

असल्याने त्याच्या निघून गेली होती.

कौट्रंबिक गरजा भागवण्यासाठी सुरू केला कुटणखाना

भाड्याच्या घरातून सुरू होता व्यवसाय

नागपूर, क्राईम रिपोर्टर. कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी एका दाम्पत्याने शकल लढवत चक्क कुंटणखानाच सुरू केला. मागील ६ महिण्यांपासून हडकेश्वरच्या बजरंगनगरात भाड्याच्या खोलीमध्ये त्यांचा व्यवसाय सुरू होता. माहिती मिळताच सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पथकाने धाड मारून देहविक्रीचा भंडाफोड करीत ३ जणांना अटक केली. रोशनकमार शाह, त्याची पत्नी निमता शाह आणि नीता खोत अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत.

शाहदाम्पत्यभाड्याने खोली करूनराहतात. पती रोशनकुमार हा बांधकाम मजूर आहे. प्रचंड परिश्रम केल्यानंतरही त्याला पाहिजे तशी मिळकत मिळत नव्हती, कौटंबिक गरजाही पूर्ण होत नव्हत्या, त्याच्या डोक्यात कुंटणखाना चालविण्याची कल्पना आली. यासाठी त्याची पत्नी, पीडित महिलांचा शोध घ्यायची. त्याना पैशाचे आमिष दाखवून देहविक्रसाठी प्रवृत्त करायची आणि तो ग्राहक शोधायचा. स्वतच्याच घरी ग्राहकांना महिला प्रविण्याचे काम सुरू झाले. गेल्या सहा महिण्यांपासून त्यांचा कुंटणखाना सुरू होता. याबाबत सामाजिक सुरक्षा विभागाला माहिती मिळाली. विरिष्ठांच्या आदेशावरून धाड मारण्याची योजना ठरली. ठरल्या प्रमाणे एका पंटर ग्राहकाला पाठविण्यात आले. सौदा तय झाला आणि पंटरने इशारा करताच बाहेर दबा धरून बसलेल्या पोलिसांनी धाड मारली. यावेळी दोन पीडित महिला मिळाल्या. चौकशी करून त्यांची सुटका करण्यात आली. तर पती पत्नीसह नीता खोत हीच्या विरुद्ध

हडकेश्वर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. ही कारवाई अपर पोलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, पोलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक ललिता तोडासे, सपोनि संतोष जाधव, अनिल अंबाडे, भुषन झाडे, संदिप चंगोले, राशिद शेख, चेतन गेडाम, लक्ष्मण चौरे, मनिष रामटेके, रिना जाउरकर, प्रतिमा

सं माहिती- नाग - 51 / 2022

कालचा शुभाक 470-1 मणिपुर 677-0 कल्याण 337-3 167-4 237-2 राजधानी 568-9 कुबेर खजाना डे नागपूर मार्निग